



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 46 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)
1 फरवरी, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2017

संख्या- 1/स्था०/श०स्था०नि०/20/2015-7732(अनु०) -- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-20.3 के प्रावधान के आलोक में उक्त नियमावली को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**

- (i) **संक्षिप्त नाम:-** यह नियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017' कही जायेगी ।
- (ii) **विस्तार:-** इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) **प्रभाव की तिथि:-** यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-
- 2.1 नियमावली में जहाँ-जहाँ नगर विकास विभाग अंकित है, के स्थान पर नगर विकास एवं आवास विभाग प्रतिस्थापित किया जाता है ।
- 2.2 नगरपालिका संवर्ग हेतु स्वीकृत सभी पद 'झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017' के अन्तर्गत माने जायेंगे ।
- 2.3 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 की अनुसूची-1 (क), (ख) एवं (ग) को प्रतिस्थापित करते हुए, अनुसूची -1 (क) से अनुसूची-1 (ज) तक जोड़ा जाता है ।
- 2.4 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग के लिए सृजित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विषय, पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप निम्न प्रकार होगा:-
- 2.4.1 सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का विषय, पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप वही होगा, जो झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु लागू है ।
- 2.4.2 सहायक अभियंता (असैनिक) एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का विषय, पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-2376 (एस) दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के द्वारा अधिसूचित, झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधान के अनुरूप होगा ।
- 2.4.3 लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का विषय, पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप वही होगा, जो "झारखण्ड लेखा सेवा नियमावली, 2008 (संशोधित 2014)" हेतु लागू है ।
- 2.4.4 सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का विषय, पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप स्वास्थ्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2010 में निहित प्रावधान के अनुरूप होगा ।
- 2.5 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 के प्रावधान निम्नवत हैं:-
- “प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर तक की कुल रिक्तियों की संख्या, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या अवधारित कर किया जायेगा तथा इसकी सूचना नियुक्ति हेतु अगले वर्ष की 31 जनवरी तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकेगी।”

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए, निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम-7 विभाग संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा ।

उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयेरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना 28/29 फरवरी तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा ।

2.6 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-10.2 में अंकित वाक्य 'इसी प्रकार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये जानेवाले पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा आयोजित की जायेगी।' को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

'इसी प्रकार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये जानेवाले पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी ।'

2.7 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-6.3 के प्रावधान निम्नवत हैं:-

"सेवा में सम्मिलित पदों को अनुसूची में अन्तर्विष्ट (Restrictions) के अध्यधीन रहते हुए सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा ।

परंतु यह कि विशेष परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के प्रस्ताव पर किसी शहरी स्थानीय निकाय के मामले में राज्य सरकार अपने आदेश द्वारा अनुसूची की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी ।"

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए, निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"सेवा में सम्मिलित पदों को अनुसूची में अन्तर्विष्ट (Restrictions) के अध्यधीन रहते हुए सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा ।

परंतु यह कि विशेष परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के प्रस्ताव पर किसी शहरी स्थानीय निकाय के मामले में राज्य सरकार अथवा यदि वह विषय झारखण्ड लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में आयोग की सहमति प्राप्त करते हुए, अनुसूची की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी ।"

2.8 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-6.4 के प्रावधान निम्नवत हैं -

"प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए सचिव, नगर विकास विभाग एवं निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में अलग-अलग प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियमों के आलोक में किया जायेगा" ।

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए, निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम-6.4 नगरपालिका सेवा संवर्ग के अराजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

नगरपालिका सेवा संवर्ग के मूल कोटि के राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

नगरपालिका सेवा संवर्ग के मूल कोटि (राजपत्रित) के पदों को छोड़कर शेष राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

2.9 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 में मद संख्या-17 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

**झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग अन्तर्गत गठित विभिन्न श्रेणी के पदों का वेतनमान, योग्यता एवं नियोक्ता सहित
नियमित एवं प्रोन्नति के संवर्गीय पदों का निर्धारण:**

अनुसूची-1(क)

प्रशासनिक संवर्ग						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्त्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक नगर आयुक्त	PB-II-9300-34800 G.P.-5400	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा नियुक्ति।	---	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2	कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी					
3	उप नगर आयुक्त	PB-III-15600-39100 G.P.-6600	प्रोन्नति के प्रथम सोपान	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी पद सहायक नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति।	तथैव।
4	अपर नगर आयुक्त	PB-III-15600-39100 G.P.-7600	प्रोन्नति के द्वितीय सोपान।	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी पद पर उप नगर आयुक्त की प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति।	तथैव।

अनुसूची-1(ख)**तकनीकी संवर्ग****(अ) अभियंत्रण पद समूह**

क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	कनीय अभियंता (सिविल एवं यांत्रिक)	PB-II-9300-34800 G.P.-4200	सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल या यांत्रिक में डिप्लोमा।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा।	--	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	सहायक अभियंता (सिविल)/अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार	PB-II-9300-34800 G.P.-5400	नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद। सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में स्नातक।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जायेगी।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति।	तथैव।
3.	सहायक अभियंता (परिवहन/यांत्रिक)	PB-II-9300-34800 G.P.-5400	नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद। सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक में स्नातक।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जायेगी।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति।	तथैव।
4.	कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता के तकनीकी सलाहकार	PB-III-15600-39100 G.P.-6600	प्रोन्नति के पद	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी पद प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
5.	अधीक्षण अभियंता	PB-IV-37400-67000 G.P.-8700	प्रोन्नति के पद		तथैव।	तथैव।
6.	मुख्य नगर अभियंता	PB-IV-37400-67000 G.P.-8900	प्रोन्नति के पद		तथैव।	तथैव।

(आ) अभियंत्रण पद समूह						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्त्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	कनीय अभियंता (विद्युत)	PB-II-9300-34800 G.P.-4200	सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति की जायेगी।	--	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	सहायक अभियंता (विद्युत)	PB-II-9300-34800 G.P.-5400	नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद। सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अभियंत्रण या इसके समकक्ष विषय में स्नातक।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जायेगी।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

(इ) गैर अभियंत्रण पद समूह						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे- बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्त्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	पाईप लाईन इंस्पेक्टर	PB-I-5200-20200 G.P.-1900	सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति की जायेगी।	---	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर	PB-I-5200-20200 G.P.-2400	सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से विद्युत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति की जायेगी।	---	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

अनुसूची-1 (ग)

लेखा संवर्ग						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	निम्नवर्गीय लिपिक/कार्यालय सहायक-सह-लेखापाल/लेखा लिपिक/लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	PB-I-5200-20200 G.P-1900	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ संस्थान से इन्टरमिडियट/10+2 तथा हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम गति।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	---	तथैव।
2.	लेखापाल-सह-कैशियर/ लेखापाल	PB-I-5200-20200 G.P-2400	प्रोन्नति के पद	निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा सभी पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक-सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	तथैव।
3.	सहायक लेखा पदाधिकारी	PB-II-9300-34800 G.P-4200	प्रोन्नति के पद	निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा सभी पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा	तथैव।

					अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक- सदस्य, सहायक निदेशक- सदस्य सचिव।	
4.	लेखा पदाधिकारी	PB-III-9300- 34800 G.P-5400	नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद। सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/ सांख्यिकी में स्नातक	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत पद झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जायेगी।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
5.	मुख्य लेखा पदाधिकारी	PB-III- 15600- 39100 G.P – 6600	प्रोन्नति के पद	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कुल पद प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति।	तथैव।

अनुसूची-1 (घ)

राजस्व संवर्ग

क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्यवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व निरीक्षक	PB-I-5200-20200 G.P-2400	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से वाणिज्य/ अर्थशास्त्र/ गणित/सांख्यिकी में स्नातक	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा।	---	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	सहायक कर अधीक्षक	PB-I-5200-20200 G.P-2800	प्रोन्नति के पद	---	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक-सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	तथैव।
3.	सहायक राजस्व पदाधिकारी (एसेस्मेंट एण्ड भैल्युएशन ऑफिसर/टैक्स सुपरिटेन्डेंट/सहायक मुल्यांकन पदाधिकारी का पद एकीकृत)	PB-II-9300-34800 G.P-4200	प्रोन्नति के पद	---	तथैव।	तथैव।
					तथैव।	तथैव।
					तथैव।	तथैव।
4.	चीफ एसेस्मेंट एवं भैल्युएशन पदाधिकारी	PB-III-15600-39100 G.P-6600	प्रोन्नति के पद	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी पद पर सहायक राजस्व पदाधिकारी/एसेस्मेंट एण्ड भैल्युएशन ऑफिसर/टैक्स सुपरिटेन्डेंट की प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	सदस्य राजस्व पद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

अनुसूची-1 (इ)

लोक स्वास्थ्य संवर्ग

क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	सेनेटरी सुपरवाइजर	PB-I-5200-20200 G.P-2000	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेनेटरी।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	सेनेटरी एण्ड फुड इंस्पेक्टर	PB-I-5200-20200 G.P-2400	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फुड एण्ड हाइजिन।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
3.	चीफ सैनेटरी इंस्पेक्टर	PB-II-9300-34800 G.P-4200	प्रोन्नति का पद।	----	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण,

					अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक-सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
4.	सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी	PB-II-9300-34800 G.P-5400	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से चिकित्सा विज्ञान में स्नातक।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा नियुक्ति।	----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
5.	लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी	PB-III-15600-39100 G.P-6600	प्रोन्नति का पद।(सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद से प्रोन्नति)	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी पद प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे	सदस्य राजस्व पर्वद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

अनुसूची-1 (च)

हार्टिकल्चर संवर्ग						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	गार्डन अधीक्षक	PB-II-9300-34800 G.P-4200	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान/हार्टिकल्चर/वाणिकी में स्नातक।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	-----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	हार्टिकल्चर पदाधिकारी	PB-II-9300-34800 G.P-4600	प्रोन्नति का पद।	----	निदेशक-अध्यक्ष, कर्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक-सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

अनुसूची-1 (छ)

जनसम्पर्क संवर्ग						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	पब्लिसीटी सहायक	PB-I-5200-20200 G.P-2800	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास कम्प्युनिकेशन एवं इसके समकक्ष विषय में स्नातक।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	---	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	सहायक जन सम्पर्क पदाधिकारी/जनसम्पर्क पदाधिकारी	PB-II-9300-34800 G.P-4200	प्रोन्नति का पद।	---	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक-सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

अनुसूची-1 (ज)

विधि संवर्ग						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	विधि सहायक	PB-I-5200-20200 G.P-2800	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातक।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	-----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	सहायक विधि पदाधिकारी	PB-II-9300-34800 G.P-4200	प्रोन्नति का पद।	-----	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक -सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
3.	विधि पदाधिकारी	PB-II-9300-34800 G.P-5400	प्रोन्नति का पद।	-----	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

अनुसूची-1 (झ)

भेटनरी संवर्ग						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	भेटनरी सहायक/चिकित्सा सहायक	PB-I-5200-20200 G.P-1900	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त महाविधालय/संस्थान से जीव विज्ञान में इन्टरमिडियट।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	-----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	भेटनरी ऑफिसर	PB-II-9300-34800 G.P-4200	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त महाविधालय/संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	-----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
3.	चिकित्सा पदाधिकारी	PB-II-9300-34800 G.P-5400	प्रोन्नति का पद।	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा नियुक्ति।	-----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

अनुसूची-1 (अ)
ऑफिस मैनेजमेंट संवर्ग

(अ) लिपिकीय पद समूह						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्यवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	निम्नवर्गीय लिपिक/ कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर / लेखा लिपिक -सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	PB-I-5200-20200 G.P-1900	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ संस्थान से इंटरमिडियट/10+2 तथा हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम गति।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुषंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	-----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	प्रशाखा पदाधिकारी/ भू-सम्पदा पदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक	PB-II-9300-34800 G.P-4200	प्रोन्नति का पद (निम्नवर्गीय लिपिक से प्रोन्नति) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण	-----	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक-सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
3.	प्रशासी पदाधिकारी	PB-II-9300-34800 G.P-4600	प्रोन्नति का पद।	-----	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक-सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

(आ) आशुलिपिकीय पद समूह						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्टेनोग्राफर/निजी सहायक	PB-I-5200-20200 G.P-2400	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ संस्थान से इन्टरमिडियट/10+2 तथा हिन्दी आशु टंकण में यथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम गति।	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	-----	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
2.	प्राइवेट सेक्रेटरी	PB-II-9300-34800 G.P-4200	प्रोन्नति का पद (स्टेनोग्राफर से प्रोन्नति)	-----	निदेशक-अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप निदेशक-सदस्य, सहायक निदेशक-सदस्य सचिव।	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016

(इ) योजना लिपिक पद समूह						
क्र०	सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान/पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अहर्ता	नियोक्ता	प्रोन्नति समिति	अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संगत नियमावली
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्लानिंग असिस्टेंट	PB-I-5200-20200 G.P-2800	सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति किया जायेगा।	---	झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016
